

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रस्तावना

EXTRAORDINARY

भाग — खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

192] नई दिल्ली, सोमवार, नवंबर 30, 1970/अग्रहायण 9, 1892

No. 192] NEW DELHI MONDAY, NOVEMBER 30, 1970/AGRAHAYANA 9, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

### RESOLUTION

*New Delhi, the 30th November 1970*

No. 7(13)-MDF/70.—The following may be inserted as a new paragraph viz., 13-A below existing para 13 to the "Code of Grants-in-Aid for Export Effort" issued by the then Ministry of Commerce (Now Ministry of Foreign Trade) in July, 1968.

13-A. Setting up of showrooms in India for display of products for the benefit of foreign buyers and other exporting interests.

The fund may grant assistance for setting up of showrooms in India by an Export House or collectively by more than one Export House for display of goods for the benefit of foreign buyers and other export interests, as follows:—

- (a) grant upto 25 per cent of the expenditure on staff and accommodation for an initial period of three years.
- (b) In addition 25 per cent of the initial expenditure on non-recurring basis on setting up of showroom excluding cost of exhibits subject to a maximum of Rs 1 lakh.

The expenditure on cost of building will not be considered from M.D.F. grant.

The assistance in (a) and (b) above would be considered in respect of Export Houses whose level of exports is Rs. 5 crores or more per year. The showrooms set up in places where permanent exhibitions/showrooms already exist on a collective basis under the auspices of bodies like Federation of India Export Organisations. All India Manufacturers Organisations or Export Promotion Councils etc., will not be normally eligible for such assistance.

#### ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

BHAGWAN SINGH,  
Addl. Secy. to the Govt. of India.

### विदेशी व्यापार मन्त्रालय

#### संकल्प

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1970

सं० 7(13)-एम०जी०एफ०/70 :—जुलाई 1968 में वाणिज्य मन्त्रालय (अब विदेशी व्यापार मन्त्रालय) द्वारा जारी किये गये “निर्यात प्रयास के लिए सहायक अनुदान संहिता” की वर्तमान कंडिका 13 के नीचे निम्नलिखित को एक नई कंडिका अर्थात् 13-क के रूप में रखा जाये :—

13-क विदेशी ग्राहकों तथा अन्य निर्यातकहितों के लाभ के लिए उत्पादों के प्रदर्शन हेतु भारत में प्रदर्शन कक्षों की स्थापना।

विदेशी ग्राहकों और अन्य निर्यात हितों के लाभ के लिए वस्तुओं के प्रदर्शन हेतु एक निर्यात सदन अथवा सामूहिक रूप से अनेक निर्यात सदनों के द्वारा भारत में प्रदर्शन कक्षों की स्थापना के लिए निधि से निम्नोक्त प्रकार सहायता मंजूर की जा सकती है :—

(क) प्रारम्भिक तीन वर्ष की अवधि के लिए अमले तथा आवास-स्थान पर व्यय का 25 प्रतिशत तक का अनुदान।

(ख) इसके अतिरिक्त प्रदर्शन कक्षों की स्थापना पर अनावर्ती आधार पर प्रारम्भिक व्यय का 25 प्रतिशत जो एक लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत होगा, और जिसमें प्रदर्शनीय वस्तुओं की लागत शामिल नहीं होगी।

विपणन विकास निधि से अनुदान के लिए भवन की लागत—व्यय पर विचार नहीं किया जायेगा

उपर्युक्त (क) तथा (ख) में सहायता पर उन निर्यात सदनों के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा, जिनका वार्षिक निर्यात स्तर 5 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक का होगा। ऐसे स्थानों पर स्थापित किये गये प्रदर्शन कक्ष ऐसी सहायता के पात्र नहीं होंगे जहाँ भारतीय निर्यात संगठनों की फेडरेशन, अखिल भारतीय निर्माता संघ अथवा निर्यात संवर्धन परिषदों आदि जैसे निकायों के तत्वावधान के अन्तर्गत सामूहिक आधार पर पहले ही स्थायी प्रदर्शनियाँ/प्रदर्शन कक्ष विद्यमान हैं।

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

भगवान सिंह, अव्वर सचिव।